



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{7}{8} + \frac{5}{8} =$$

$$\frac{5}{9} + \frac{7}{9} =$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{2}{9} + \frac{3}{9} =$$

$$1\frac{1}{4} + \frac{6}{4} =$$

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} =$$

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{2}{3} =$$

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$$

$$\frac{7}{8} + \frac{2}{8} =$$



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{9} + \frac{7}{9} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$$

$$1\frac{1}{4} + \frac{6}{4} = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{2}{3} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$